



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 357]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 22, 1978/आषाढ़ 31, 1900

No. 357]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 22, 1978/ASADHA 31, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1978

का. आ. 461 (अ)/15/उ. वि. वि. अ./78.—यतः हालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रम जिसका पंजीकृत कार्यालय चखी दादरी, हरियाणा में स्थित है, अनुसूचित उद्योग अर्थात् सीमेंट के विनिर्माण में लगा हुआ है।

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में पर्याप्त कमी होने की संभावना है जो विद्यमान आर्थिक दशाओं का ध्यान में रखते हुए न्यायोचित नहीं है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) को धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मामले की परिस्थितियों का पूरा-पूरा और

सम्पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों के एक निकाय की नियुक्ति करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. श्री ए. पी. महेश्वरी, ... अध्यक्ष
निदेशक (संचालन),
भारत सीमेंट निगम लिमिटेड
2. श्री ए. के. राय चौधरी, ... सदस्य
उप सलाहकार,
वित्त प्रभाग,
सरकारी उद्यम ब्यूरो।
3. श्री बी. भवानी शंकर, ... सदस्य
उप निदेशक (लेखा),
कम्पनी कार्य विभाग।

उक्त निकाय अपनी रिपोर्ट इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर देगा।

[सं. फा. 2(40)/78-सी.यू.सी.]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 22nd July, 1978

S.O. 461(E).—Whereas the industrial undertaking known as the Dalmia Dadri Cement Limited having its Registered Office at Charkhi Dadri, Haryana, is engaged in a Scheduled industry, namely, cement;

And whereas the Central Government is of the opinion that there is likely to be a substantial fall in the volume of production in respect of the articles manufactured in the said industrial undertaking, for which having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete

investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of—

- | | | |
|--|-----|----------|
| (1) Shri A. P. Maheshwary, | ... | Chairman |
| Director (Operations), Cement Corporation of India Ltd., | | |
| (2) Shri A. K. Roy Chowdhury, | .. | Member |
| Deputy Adviser, Finance Division, Bureau of Public Enterprises | | |
| (3) Shri B. Bhawani Shanker, | ... | Member |
| Deputy Director (Accounts), Department of Company Affairs. | | |

The above body shall submit its report within a period of 4 weeks from the date of issue of this order in the Official Gazette.

[F. No. 2/40/78-CUC]

P. C. NAYAK, Joint Secy.